Roll No: -

[Full. Marks: 70]

Sem-VI Diploma Exam 2024 (Even) (Mechanical Engg.) (Theory)

Design of Machine Elements (1625602)

(1) प्रश्न में कुल III खण्ड है| जिनका उत्तर उत्तर-पुस्तिका में लिखना अनिवार्य है |

[Time: 3 Hours]

खण्ड I से सभी $10.\ II$ से सभी ५ एवं III से सभी ५ प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है **(2)**

(3) खण्ड I के प्रत्येक प्रश्न का मान २, खण्ड II के प्रत्येक प्रश्न का मान ४ एवं खण्ड III के प्रत्येक प्रश्न का मान 6 अंको का |t|

Group (A) (ग्रप -ए)

Q.1	Answer all questions as directed. (2x10=20) (निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर दें)	Marks	СО	BL
a)	The S-N curve represents the relationship between	2	-	1
b)	in machine design enhances the of parts. (standardization/changeability/interchangeability/unstanndardization)	2	-	-
c)	Spur gear design considerations include factors like tooth	2	-	-
d)	Sunk keys play a crucial role in	2	-	1
e)	Turnbuckles are primarily used for transmitting power between two shafts. (True/False) टर्नबकल का उपयोग मुख्य रूप से दो शाफ्ट के बीच शक्ति संचारित करने के लिए किया जाता है। (सही/गलत)	2	-	1
f)	The torque required to overcome thread friction in power screws depends on factors such as and (coefficient of friction/lead angle/ diameter/ Pitch) पावर स्क्रू में थ्रेड घर्षण को दूर करने के लिए आवश्यक टॉर्क और और और करता है। (घर्षण का गुणांक/ लीड/कोण/ व्यास/ पिच)	2	-	-

Page **1** of **4** (1625602)

g)	The merits of screwed joints include cost and maintenance compared to welded joints.	2	-	-
	(Higher/ Lower/ harder/ easier)			
	विल्डेड जोड़ों की तुलना में पेंचदार जोड़ों की खूबियों में लागत और रखरखाव			
	शामिल है।			
	(उच्च, निचला, कठिन, आसान)			
h)	Transverse fillet welds are typically used in applications involving	2	_	_
,	(Tensile loading/Compressive loading/Shear loading/Torsional loading)			
	अनुप्रस्थ फ़िलेट वेल्ड का उपयोग आम तौर पर ऐसे अनुप्रयोगों में किया जाता है जिनमेंशामिल हैं			
	(तन्य लोडिंग/संपीड़ित लोडिंग/कतरनी लोडिंग/टोर्शनल लोडिंग)			
i)	Bolts of uniform strength are designed to have the strength throughout	2	_	-
	their			
	(different/same/ length/ diameter)			
	एकसमान ताकत के बोल्ट को उनकी पूरी में ताकत के लिए डिज़ाइन किया गया है			
j)	Aesthetic considerations aim to enhance the and	2	-	-
	of the product, influencing consumer perception.			
	(Appearance, attractiveness, disappearance, colour)			
	सौंदर्य संबंधी विचारों का उद्देश्य उपभोक्ता की धारणा को प्रभावित करते हुए उत्पाद की और			
	को बढ़ाना है।			
	(रूप, आकर्षण, गायब होना, रंग)			
	Group (B) (ग्रुप -बी)			
	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) $4x5=20$			
Q.2	Define Endurance limit and draw typical SN. curve for steel.	4	_	-
	एन्डुरंस लिमिट को परिभाषित करें और स्टील के लिए विशिष्ट एसएन वक्र बनाएं।			
	OR (अथवा)	4	-	-
	Define stress concentration and its two remedies to reduce stress concentration. तनाव एकाग्रता को परिभाषित करें और तनाव एकाग्रता को कम करने के दो उपाय बताएं।			
Q.3	List any four applications of cotter joint.	4	_	_
•	कॉटर जोड़ के किन्हीं चार अनुप्रयोगों की सूची बनाइए।			
	OR (अथवा)			
	Explain design procedure of muff coupling	4	-	-
	मफ़ कपलिंग की डिज़ाइन प्रक्रिया समझाएँ			
Q.4	State the significance of Wahl's correction factor in design of spring.	4	-	-
	स्प्रिंग के डिजाइन में वाहल के सुधार कारक का महत्व बताएं। OR (अथवा)			
	A closely coiled helical spring is used to carry a load of 500 N. Its mean coiled	4	_	_
	diameter is to be 10 times that of wire diameter. Calculate the diameters if the			

Page **2** of **4** (1625602)

	$500~\mathrm{N}$ का भार उठाने के लिए एक बारीकी से कुंडलित पेचदार स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। इसका माध्य कुंडलित			
	व्यास तार व्यास का 10 गुना होना चाहिए। व्यास की गणना कीजिए यदि स्प्रिंग के पदार्थ में अधिकतम अपरूपण प्रतिबल 80			
	MN/m^2 है।			
Q.5	Explain self-locking and overhauling of screws.	4	_	_
	स्क्रू की सेल्फ लॉकिंग और ओवरहालिंग को समझाइए।			
	OR (अथवा)			
	Write strength equations for design of screw spindle of toggle jack.	4	_	_
	टॉगल जैक के स्क्रू स्पिंडल के डिज़ाइन के लिए शक्ति समीकरण लिखें।			
Q.6	State four examples of ergonomics consideration in design of a lathe machine.	4		
Q.U	लेथ मशीन के डिज़ाइन में एगोंनॉमिक्स विचार के चार उदाहरण बताएं।		-	_
	ाथ मरानि क डिआइन न स्नानानिक्स विचार के चार उदाहरण बतास्य OR (अथवा)			
	· /	4		
	State the meaning of following colour codes used in Aesthetic considerations	4	-	-
	while designing a product			
	i) Red			
	ii) Green			
	iii) Orange			
	iv) Blue			
	किसी उत्पाद को डिज़ाइन करते समय सौन्दर्यशास्त्र में प्रयुक्त निम्नलिखित रंग कोडों का अर्थ बताइए			
	i) लाल			
	ii) हरा			
	iii) नारंगी			
	iv) नीला			
	1v) નાલા			1
	\mathbf{C}			
	Group (C) (ग्रुप - सी)			
	Group (C) (ग्रुप - सी) Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) 6x5=30			
	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) 6x5=30			
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term.	6	_	-
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) 6x5=30	6	-	-
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term.	6	-	-
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) 6x5=30 Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये।	6	-	-
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) 6x5=30 Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा)		-	-
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) 6x5=30 Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum		-	-
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) 6x5=30 Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63		-	-
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) 6x5=30 Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 MPa and angle of twist in a length of 3 meter not to exceed 1.4 degree. Find		-	-
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 MPa and angle of twist in a length of 3 meter not to exceed 1.4 degree. Find external diameter of the shaft if the internal diameter to external diameter is 3/8. Take modulus of rigidity 84 GPa.		-	-
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 MPa and angle of twist in a length of 3 meter not to exceed 1.4 degree. Find external diameter of the shaft if the internal diameter to external diameter is 3/8. Take modulus of rigidity 84 GPa. एक खोखले शाफ्ट को 110 आरपीएम पर 600 किलोबाट संचारित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना है। अधिकतम टॉर्क		-	-
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 MPa and angle of twist in a length of 3 meter not to exceed 1.4 degree. Find external diameter of the shaft if the internal diameter to external diameter is 3/8. Take modulus of rigidity 84 GPa. एक खोखले शाफ्ट को 110 आरपीएम पर 600 किलोबाट संचारित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना है। अधिकतम टॉर्क औसत से 20% अधिक है। कतरनी तनाव 63 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए और 3 मीटर की लंबाई में मोड़ का		-	-
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 MPa and angle of twist in a length of 3 meter not to exceed 1.4 degree. Find external diameter of the shaft if the internal diameter to external diameter is 3/8. Take modulus of rigidity 84 GPa. एक खोखले शाफ्ट को 110 आरपीएम पर 600 किलोबाट संचारित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना है। अधिकतम टॉर्क औसत से 20% अधिक है। कतरनी तनाव 63 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए और 3 मीटर की लंबाई में मोड़ का कोण 1.4 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शाफ्ट का आंतरिक व्यास बाहरी व्यास से 3/8 है तो शाफ्ट का बाहरी		-	-
Q.7	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 MPa and angle of twist in a length of 3 meter not to exceed 1.4 degree. Find external diameter of the shaft if the internal diameter to external diameter is 3/8. Take modulus of rigidity 84 GPa. एक खोखले शाफ्ट को 110 आरपीएम पर 600 किलोबाट संचारित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना है। अधिकतम टॉर्क औसत से 20% अधिक है। कतरनी तनाव 63 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए और 3 मीटर की लंबाई में मोड़ का		-	-
	Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 MPa and angle of twist in a length of 3 meter not to exceed 1.4 degree. Find external diameter of the shaft if the internal diameter to external diameter is 3/8. Take modulus of rigidity 84 GPa. एक खोखले शाफ्ट को 110 आरपीएम पर 600 किलोबाट संचारित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना है। अधिकतम टॉर्क औसत से 20% अधिक है। कतरनी तनाव 63 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए और 3 मीटर की लंबाई में मोड़ का कोण 1.4 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शाफ्ट का आंतरिक व्यास बाहरी व्यास से 3/8 है तो शाफ्ट का बाहरी व्यास ज्ञात करें। कठोरता मापांक 84 GPa लें।	6	-	-
Q.7 Q.8	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 MPa and angle of twist in a length of 3 meter not to exceed 1.4 degree. Find external diameter of the shaft if the internal diameter to external diameter is 3/8. Take modulus of rigidity 84 GPa. एक खोखले शाफ्ट को 110 आरपीएम पर 600 किलोबाट संचारित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना है। अधिकतम टॉर्क औसत से 20% अधिक है। कतरनी तनाव 63 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए और 3 मीटर की लंबाई में मोड़ का कोण 1.4 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शाफ्ट का आंतरिक व्यास बाहरी व्यास से 3/8 है तो शाफ्ट का बाहरी व्यास ज्ञात करें। कठोरता मापांक 84 GPa लें। Design a Knuckle joint to withstand 150 kN, the design stress are 75 MPa, 60		-	-
	Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 MPa and angle of twist in a length of 3 meter not to exceed 1.4 degree. Find external diameter of the shaft if the internal diameter to external diameter is 3/8. Take modulus of rigidity 84 GPa. एक खोखले शाफ्ट को 110 आरपीएम पर 600 किलोबाट संचारित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना है। अधिकतम टॉर्क औसत से 20% अधिक है। कतरनी तनाव 63 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए और 3 मीटर की लंबाई में मोड़ का कोण 1.4 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शाफ्ट का आंतरिक व्यास बाहरी व्यास से 3/8 है तो शाफ्ट का बाहरी व्यास ज्ञात करें। कठोरता मापांक 84 GPa लें।	6	-	-
	Answer all five questions. (सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दें) Write Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 MPa and angle of twist in a length of 3 meter not to exceed 1.4 degree. Find external diameter of the shaft if the internal diameter to external diameter is 3/8. Take modulus of rigidity 84 GPa. एक खोखले शाफ्ट को 110 आरपीएम पर 600 किलोबाट संचारित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना है। अधिकतम टॉर्क औसत से 20% अधिक है। कतरनी तनाव 63 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए और 3 मीटर की लंबाई में मोड़ का कोण 1.4 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शाफ्ट का आंतरिक व्यास बाहरी व्यास से 3/8 है तो शाफ्ट का बाहरी व्यास ज्ञात करें। कठोरता मापांक 84 GPa लें। Design a Knuckle joint to withstand 150 kN, the design stress are 75 MPa, 60	6	-	-
	Mrite Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. ि एयर दांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये।	6	-	-
	Mrite Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर वांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये।	6	-	-
	Mrite Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर वांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये। OR (अथवा) A hollow shaft is to be designed to transmit 600 kW at 110 rpm. The maximum torque being 20% greater than the mean. The shear stress is not to exceed 63 MPa and angle of twist in a length of 3 meter not to exceed 1.4 degree. Find external diameter of the shaft if the internal diameter to external diameter is 3/8. Take modulus of rigidity 84 GPa. एक खोखले शाफ्ट को 110 आरपीएम पर 600 किलोबाट संचारित करने के लिए डिजाइन किया जाना है। अधिकतम टॉर्क औसत से 20% अधिक है। कतरनी तनाव 63 MPa से अधिक नहीं होना चाहिए और 3 मीटर की लंबाई में मोड़ का कोण 1.4 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शाफ्ट का आंतरिक व्यास बाहरी व्यास से 3/8 है तो शाफ्ट का बाहरी व्यास ज्ञात करें। कठोरता मापांक 84 GPa लें। Design a Knuckle joint to withstand 150 kN, the design stress are 75 MPa, 60 MPa and 150 MPa in tension, shear and compression respectively. 150 kN को झेलने के लिए एक नक्कल जोड़ को डिजाइन करें, डिजाइन तनाव क्रमशः 75 MPa, 60 MPa और 150 MPa तनाव, कतरनी और संपीइन में है। OR (अथवा)	6	-	-
	Mrite Lewis equation for strength of gear tooth. Give meaning of each term. गियर वांत की मजबूती के लिए लुईस समीकरण लिखें। प्रत्येक पद का अर्थ बताइये।	6	-	-

Page **3** of **4** (1625602)

	n any two theory of failures with neat sketch.	6	-	-
किन्हीं दो	थ्योरी ऑफ़ फैलोरेस को स्पष्ट रेखाचित्र सहित समझाइए।			
	OR (अथवा)			
Comp	are the weight, strength and stiffness of a hollow shaft of same external	6	-	-
diame	er as that of solid shaft. The inside diameter of the hollow shaft is half the			
extern	al diameter. Both the shafts have the same material and length.			
ठोस शाप	. के समान बाहरी व्यास वाले खोखले शाफ्ट के वजन, ताकत और कठोरता की तुलना करें। खोखले शाफ्ट का			
आंतरिक	त्र्यास बाहरी व्यास का आधा है। दोनों शाफ्ट की सामग्री और लंबाई समान है।			
Q.10 A heli	cal spring is made from a wire of 8 mm diameter and has outside diameter	6	-	-
	r; if the permissible shear stress is 350 N/mm2 and modulus of rigidity 84			
kN/m	n2, find the axial load which the spring can carry and the deflection per			
active	turn. i) Neglecting the effect of curvature ii) Considering the effect of			
curvat	ure			
एक पेचद	र स्प्रिंग 8 मिमी व्यास के तार से बनाया जाता है और इसका व्यास 90 मिमी होता है; यदि अनुमेय अपरूपण			
	50 N/mm^2 तथा कठोरता मापांक 84 N/mm^2 है, तो कमानी द्वारा वहन किया जा सकने वाला अक्षीय भार			
	सक्रिय फेर विक्षेप ज्ञात कीजिए। ${ m i}$) वक्रता के प्रभाव की उपेक्षा ${ m ii}$) वक्रता के प्रभाव पर विचार करना			
WIK IFD	OR (अथवा)			
Expla	n the following:	6		_
-	ding contact bearing (b) Rolling contact bearing	Ü		
	त्वात को समझाइये:			
(७) स्ट	ाइडिंग कांटेक्ट बीयरिंग (बी) रोलिंग कांटेक्ट बीयरिंग			
Q.11 Expla	n with neat sketch bolt of uniform strength.	6	_	_
-	मजबूती के बोल्ट को साफ-सुथरे स्केच से समझाइए।	O		
एकसमान	or पाएट का साक-सुवर स्काय स समझाइए। OR (अथवा)			
Δ nlat	e 75 mm wide and 12.5 mm thick is to be joined with another plate by	6		
single	2.75 mm wide and 12.5 mm thek is to be joined with another place by	O	-	-
_	erse and parallel fillet weld, Maximum tensile and shear stresses are 70			
	2 and 56 N/mm2 respectively. Find the length of each parallel fillet weld if			
	subjected			
to 90	· ·			
	चौड़ी और 12.5 मिमी मोटी एक प्लेट को एकल द्वारा दूसरी प्लेट के साथ जोड़ा जाना है अनुप्रस्थ और समानांतर			
	•			
पाष्ट्रका व	न्ड, अधिकतम तन्यता और कतरनी तनाव क्रमशः $70~\mathrm{N/mm2}$ और $56~\mathrm{N/mm2}$ हैं। प्रत्येक समानांतर			
^ `	न्ड की लंबाई ज्ञात करें यदि संयुक्त $90~\mathrm{kN}$ अधीन है।			

____*****

Page **4** of **4** (1625602)